

## प्रेस विज्ञप्ति

### जनपद बस्ती

दिनांक:-28.06.2021

**थाना नगर, साइबर सेल बस्ती व सर्विलांस सेल बस्ती की संयुक्त टीम द्वारा खातो से धोखाधड़ी करके रुपये निकालने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के तीन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री आशीष श्रीवास्तव के आदेश के क्रम में जनपद बस्ती में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती श्री दीपेन्द्र नाथ चौधरी के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कलवारी श्री शक्ति सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक नगर श्री अरविन्द कोरी, प्रभारी साइबर सेल उ0नि0 श्री मजहर खान की संयुक्त टीम द्वारा खातो से धोखाधड़ी करके रुपये निकालने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 03 अभियुक्तों को दिनांक 28.06.2021 को अकसड़ा चौराहा थाना नगर जनपद बस्ती से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बस्ती रवाना किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

- 1- अयोध्या प्रसाद पुत्र जियालाल नि0 ग्राम कल्यानपुर उदनपुर थाना हंसवर जिला अम्बेडकरनगर(उ0प्र0)।
- 2- मोहम्मद शादाब अख्तर पुत्र दबीर अहमद पता- सिकटहां, अलहदादपुर, थाना अलीगंज जिला अम्बेडकरनगर(उ0प्र0)।
- 3- मोहम्मद वारिश उर्फ सैफी पुत्र मोहम्मद मुर्तजा पता-अलहदादपुर, थाना अलीगंज जिला अम्बेडकरनगर(उ0प्र0)।

### बरामदगी का विवरण:-

1. नकद रूपया 2000रु0।
2. 01 अदद मोटर साईकिल पल्सर बरंग काला यू0पी0 44 बीबी 1808।
3. 04 अदद मोबाईल विभिन्न कम्पनीयो के।
4. 13 अदद एटीएम कार्ड विभिन्न बैको के।
5. 10 अदद आधार कार्ड विभिन्न व्यक्तियो के।
6. 15 अदद सिम कार्ड विभिन्न कम्पनीयो के।
7. 56 अदद वोडाफोन/ आईडिया/ एयरटेल कम्पनी के खाली रैपर जिसपर मोबाइल नं0 किसी व्यक्ति का नाम, खाता नं0, कोड आदि लिखा हुआ है।
8. 21 अदद सिम कार्ड वोडाफोन कम्पनी के रैपर सहित।

## घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-20.06.2021 को रामदौड द्वारा थाना नगर जनपद बस्ती पर आकर लिखित शिकायत दर्ज कराया गया कि मेरे खाते से रु0 88,593.66 हजार निकल गये हैं जिसको किसी साईबर अपराधी ने निकाला है । जिसके सम्बन्ध में थाना नगर जनपद बस्ती पर मु0अ0स0-102/2021 धारा 419, 420, भा0द0वि0 व 66 आई0टी0 एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना थाना नगर जनपद बस्ती द्वारा प्रारम्भ की गयी ।

## पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग मिलकर एक संगठित गिरोह चलाते हैं, जिसमें हम लोग आम जनता के क्रेडिट कार्ड की डिटेल प्राप्त कर, क्रेडिट कार्ड धारकों को अपनी बातों में फंसा कर उनसे ओ0टी0पी0 प्राप्त कर लेते हैं और उनके खाते से रूपयों को ऑनलाइन निकाल लेते हैं । हम लोगों के गिरोह में सबके अपने काम निर्धारित हैं । शादाब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मै एक सी0एस0पी0 चलाता हूँ, जब भी कोई व्यक्ति अपना खाता खुलवाने आता है तो मैं उस व्यक्ति के नाम से चुपके से फर्जी बैंक खाता भी खोल देता हूँ जिसका प्रयोग हमारी गिरोह द्वारा रूपयों को ठगी कर खाते में मंगाने हेतु प्रयोग किया जाता है । मो0 वारिश उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मै फर्जी सिम कार्ड एवं पहले से चालू पेटीएम खाते गिरोह के कार्य के लिये प्रदान करता हूँ, जिसमें से पहले से चालू फर्जी सिम कार्ड से लोगो के पास फोन करने में प्रयोग किया जाता है तथा पेटीएम खातों को ठगे हुए रूपयों को मंगाने के प्रयोग में लाया जाता है तत्पश्चात् अयोध्या उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मै भी बैंक खाते और फर्जी मोबाइल नम्बर चालू करता हूँ तथा शादाब और मो0 वारिश के साथ मिलकर दिये गये बैंक खातों और मोबाइल नम्बरों पर फर्जी सिम कार्डों से फोन करते हैं और क्रेडिट कार्ड धारकों से रूपयों को निकालने के लिये भेजे गये ओ0टी0पी0 को प्राप्त कर लेते हैं और हम लोगो के द्वारा प्रदान किये गये पेटीएम तथा अन्य बैंक खातों में उन ठगे गये रूपयों को मंगा लेते हैं, जिसके बाद हम लोगो द्वारा उन रूपयों को निकाल लिया जाता है और आपस में बांट लिया जाता है । साहब हम लोगों का बस यही अपराध है जिसे हम लोगो अपने आर्थिक लाभ और जीवन यापन के लिये किया है ।

## पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

1. मु0अ0स0- 102/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा0द0वि0 व 66 आई0टी0 एक्ट ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक नगर श्री अरविन्द कोरी जनपद बस्ती ।
2. प्रभारी साइबर सेल उ० नि० श्री मजहर खान ।
4. उ० नि० श्री शशिशेखर सिंह थाना नगर ।
5. का० मोहन यादव, का० धीरेन्द्र यादव, का० अभिषेक त्रिपाठी, का० घनश्याम यादव, का० संदीप कुमार, का० दीपक कुमार गुप्ता साइबर सेल जनपद-बस्ती ।
6. का० जनार्दन प्रजापति, का० जितेन्द्र यादव सर्विलान्स सेल ।
7. हे० का० राजमनी यादव, का० संजय यादव थाना नगर जनपद बस्ती।